

हिसार में 1000 लीटर नकली पेंट बरामद: 250 रुपए में दिल्ली से खरीदते थे खाली बाल्टी, नकली कैमिकल से बनाकर कंपनी के नाम से बेचते थे

हिसार



पिकअप में रखी हुई पेंट की बाल्टियां।

हरियाणा के हिसार जिले के हांसी में नकली पेंट की पूरी खेप पकड़ी गई है। नकली पेंट को कंपनी का मार्का लगी बाल्टियों में भरकर राजस्थान से हांसी सप्लाई के लिए लाया गया था। कंपनी के अधिकारियों ने पुलिस टीम के साथ छापामारी करते हुए हांसी चुंगी के पास से पिकअप से एक हजार लीटर पेंट की 50 बाल्टियां बरामद की हैं।

इन बाल्टियों पर नेरोलेक व एशियन कंपनी का मार्का छपा हुआ था, जबकि पेंट नकली था। हांसी सिटी थाना पुलिस ने इस मामले में कंपनी के मैनेजर कमल सिंह की शिकायत पर राजस्थान के निनान निवासी राजबीर घोड़ेला व गंगासिंह पूरा निवासी दीनदयाल के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। बरामद पेंट में से सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे गए हैं।



पिकअप से बरामद पेंट

मैनेजर कमल सिंह ने बताया कि उनको सूचना मिली थी कि हांसी में उनकी कंपनी के नाम से नकली पेंट बेचा जा रहा है। इसके बाद उनकी टीम ने यहां पर बिक रहे पेंट के सैंपल लेकर जांच की तो शिकायत सही मिली। जांच में पाया कि राजस्थान का राजबीर घोड़ेला यहां पर उनकी कंपनी का पेंट सप्लाई करने आता है। इसके बाद पुलिस टीम को साथ लेकर आरोपी को पेंट सप्लाई करते हुए काबू कर लिया गया। नकली कैमिकल से पेंट तैयार करके खाली बाल्टियों में भरा गया है।



पूछताछ करती पुलिस टीम

दिल्ली से 250 रुपए में लाते हैं खाली बाल्टी

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि राजबीर घोड़ेला दिल्ली से कंपनी के पेंट की खाली बाल्टियां 250 रुपए में खरीदकर लाता है। इसके बाद खुद द्वारा तैयार नकली पेंट को इन बाल्टियों में भरकर आगे सप्लाई करता है। नकली पेंट की 20 लीटर की एक बाल्टी 800 रुपए में तैयार हो जाती है, जिसे बाजार में 5500 रुपए में बेच दिया जाता है। कंपनी के असली पेंट की यही बाल्टी बाजार में 6 हजार रुपए की मिलती है।

Source: <https://www.bhaskar.com/local/haryana/hisar/news/buying-empty-buckets-from-delhi-for-rs-250-selling-paint-made-from-fake-chemicals-in-the-name-of-the-company-129327267.html>

